

UP News Today: नोएडा में करीब 18 लाख रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद, चार गिरफ्तार

Crime News: नोएडा में पुलिस ने नकली का धंधा करने वाले एक गैंग के चार बदमाशों को बुधवार को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 18 लाख 60 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद किये हैं.

Published: July 7, 2021 4:51 PM IST

Crime News: नोएडा में पुलिस ने नकली का धंधा करने वाले एक गैंग के चार बदमाशों को बुधवार को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 18 लाख 60 हजार रुपये मूल्य के नकली नोट बरामद किये हैं. चारों ने कथित रूप से दर्जनों लोगों से ठगने की बात स्वीकार की है. अपर पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) अंकुर अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को एक सूचना के आधार पर थाना फेस-2 पुलिस ने फरमान, सन्नवर उर्फ छोटू, नौशाद तथा वसीम उर्फ राजा को गिरफ्तार किया और उनके पास से 500, 200 और 100 रूपये के नकली नोटों की गड़्डियां बरामद कीं.

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान चारों ने पुलिस को बताया कि वे सीधे-साधे लोगों को अपने जाल में फंसाते थे तथा उनसे कहते थे कि वे नकली नोट का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी लोगों का विश्वास जीतने के लिए नकली नोट बताकर उन्हें असली नोट देते थे तथा मार्केट में चलाने के लिए कहते थे. जब नोट मार्केट में चल जाता है, तो ये लोग ग्राहक को अपने जाल में फंसा लेते थे.

उन्होंने बताया कि बदमाश मनोरंजन वाली नोटों की गड़्डी बनाकर, उसके ऊपर और नीचे दो-दो असली नोट लगाते थे, तथा उसे पॉलिथीन में ऐसे रेप करते हैं, जैसे कि बैंक की गड़्डी हो. अपर उपायुक्त ने बताया कि जांच के दौरान यह बात पता चली है, कि जब ग्राहक इनके द्वारा दी गई नकली नोट की गड़्डी को गिन रहा होता था, उसी समय गैंग के लोग शोर मचा देते थे, कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तथा भगदड़ मचा देते थे. उन्होंने बताया कि ये लोग नकली नोट की गड़्डी तथा ग्राहक द्वारा दिए गए पैसे लेकर भाग जाते हैं.

Source: <https://www.india.com/hindi-news/uttar-pradesh/fake-notes-worth-about-rs-18-lakh-recovered-in-noida-four-arrested-4795070/>